

परिशिष्ट सारणी 2 : समेकित बजटीय स्थिति - एक नज़र में

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07 (लेखा)	2007-08 (बजट अनुमान)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. राजस्व खाता										
क. प्राप्तियां	5,30,556	6,06,733	6,28,742	7,19,835	98,186	18.5	22,009	3.6	91,093	14.5
ख. व्यय	5,05,699	5,94,760	6,06,216	6,91,409	1,00,517	19.9	11,456	1.9	85,193	14.1
ग. अधिशेष (+) / घाटा (-) (I क - I ख)	24,857	11,973	22,526	28,426						
II. पूंजी खाता*										
क. प्राप्तियां	1,43,049	1,60,962	1,34,635	1,75,306	-8,414	-5.9	-26,327	-16.4	40,671	30.2
ख. संवितरण	1,51,582	1,71,859	1,81,273	2,01,374	29,692	19.6	9,414	5.5	20,101	11.1
ग. अधिशेष (+) / घाटा (-) (II क - II ख)	-8,533	-10,898	-46,638	-26,068						
III. कुल प्राप्तियाँ	6,73,605	7,67,695	7,63,377	8,95,141	89,773	13.3	-4,317	-0.6	1,31,764	17.3
IV. कुल संवितरण	6,57,280	7,66,619	7,87,489	8,92,783	1,30,209	19.8	20,870	2.7	1,05,294	13.4
V. समग्र अधिशेष (+) / घाटा (-) (III-IV)	16,324	1,075	-24,112	2,358						
VI. समग्र अधिशेष (+) / घाटे (-) [V=VI (क + ख + ग)] का वित्तपोषण										
क. नकदी शेष (निवल) में वृद्धि (+) / कमी (-)	-4,783	3,161	-15,214	1,547						
ख. नकदी शेष निवेश खाते में वृद्धि (+) / से आहरण (-) (निवल)	21,275	-2,016	-8,797	901						
ग. भा. रि. बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की चुकौती (+) / में वृद्धि (-) (निवल)	-168	-70	-101	-90						

*: (i) भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय अग्रिम (ii) नकद शेष निवेश खाते से प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री और (iii) भारिबैंक के पास जमाराशियों को छोड़कर। पूंजी प्राप्तियों में लोक लेखा निवल आधार पर शामिल जबकि पूंजी व्यय लोक-लेखा को छोड़कर।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2006-07 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
2. परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।